



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 836 राँची, शुक्रवार

31 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-84/2016-1901 (HRMS)-- श्रीमती संगीता लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-772/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-732/स्था०, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2016 की प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिकाओं के रख-रखाव एवं भण्डारण में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-687, दिनांक 20 जनवरी, 2017 द्वारा श्रीमती लाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्रीमती लाल ने अपने पत्रांक-121, दिनांक 16 जुलाई, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्रीमती लाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि रामगढ़ जिला में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2016 बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई ।

अतः, श्रीमती संगीता लाल, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़, सम्प्रति-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची को आरोप से मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANGEETA LAL BHR/BAS/3382	श्रीमती संगीता लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-772/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ को आरोप से मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
